

हिन्दी (कक्षा 10)

सीखने के संभावित प्रतिफल	सहायक सामग्री	सुझावात्मक क्रियाकलाप/ गतिविधियाँ
<ul style="list-style-type: none"> कविता की समझ आनन्द एवं रचना (सुनना-देखना-पढ़ना-लिखना) पाठ्यपुस्तक में शामिल कविताओं के साथ-साथ अन्य कविताओं को भी पढ़ते-लिखते हैं। कविता की लय-तान-ध्वनि पर ध्यान देते हैं। अपने परिवेश में होने वाली घटनाओं के प्रति सजग होकर अपनी बात, विचार अभिव्यक्त करते हैं मौखिक-लिखित रूप में। जैसे- 'कोरोना वायरस' से प्रभावित देश-दुनिया का जन-जीवन। अपने परिवेश/ पर्यावरण में आए सकारात्मक/ नकारात्मक बदलावों को कविता, कहानी, निबंध के रूप में अथवा अपने ढंग से कहते/ लिखते हैं। (भाषा/अनुभवों का सृजनात्मक प्रयोग।) 	<p>ICT का उपयोग करते हुए पाठ्यपुस्तक में दिए गए क्यूआर कोड (QR Code) की सहायता ले सकते हैं।</p> <ul style="list-style-type: none"> टी.वी. पर प्रसारित कार्यक्रम, इंटरनेट, रेडियो आदि। NCERT, E-Pathshala, CIET आदि की वेबसाइट पर उपलब्ध सामग्री को देख सकते हैं। <p>www.ncert.nic.in, www.ciet.nic.in, www.swayamprabha.gov.in</p> <p>रा.शै.अ.प्र.प. की पाठ्यपुस्तक 'क्षितिज भाग 2' में संकलित कविताएँ</p> <ul style="list-style-type: none"> 'उत्साह', 'अट नहीं रही है' — सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 'यह दंतुरित मुसकान' — नागार्जुन अथवा संबंधित विषय की कोई भी अन्य कविता टी.वी., इंटरनेट, रेडियो आदि पर प्रसारित 'कोरोना वायरस' संबंधित कार्यक्रम। 	<p>पहला और दूसरा सप्ताह</p> <ul style="list-style-type: none"> सहायक सामग्री (ICT) पर उपलब्ध कविताओं का उचित आरोह-अवरोह के साथ पाठ करें। कविता में आए नये शब्दों पर ध्यान दें। आवश्यकता- अनुसार 'शब्दकोश' का सहारा ले सकते हैं। कविता की लय-तान पर ध्यान दें। कविता को विस्तृत सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भों में समझने का प्रयास करें। ICT पर उपलब्ध संबंधित कवि की अन्य कविताओं के बारे में जानने-समझने का प्रयास करें। <p>तीसरा और चौथा सप्ताह</p> <ul style="list-style-type: none"> घर में उपलब्ध टी.वी., इंटरनेट, रेडियो व अन्य ICT सामग्री की सहायता से 'कोरोना वायरस' संबंधी तथ्यात्मक जानकारी का संकलन करें। वैज्ञानिक आधार पर तथ्यों के विश्लेषण को समझे तथा इसे अपनी नोटबुक में लिखें। विस्तृत जानकारी के लिए अपने परिवार के साथ विचार-विमर्श करें। आवश्यकतानुसार स्वयं भी सचेत रहें और परिवार के सदस्यों को भी सचेत करें। इस कार्य को एक प्रोजेक्ट की तरह कर सकते हैं। जिसे बाद में अपने शिक्षक/ साथियों से साझा कर सकते हैं। अपने निकट के परिवेश जैसे- घर/परिवार/ प्रकृति/ पर्यावरण/ आदतों/ संसाधनों के उपयोग में आ रहे सकारात्मक-नकारात्मक अनुभवों को नोट करते हैं। उन्हें अपनी भाषा-शैली (ढंग) से समझने, कहने/लिखने की कोशिश करें।